

# WE ARE YOUR DOL



A proud partner of the American Job Center network

## सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर (श्रम विभाग) का मिशन है हमारे ग्राहकों - ऐसे कामगार और व्यवसाय जो न्यूयॉर्क को अपना घर कहते हैं, को हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था में विकास करने और बढ़ने का प्रयास करते हैं - बेहतरीन सेवाएं प्रदान करना।

### व्यवसायों को सहायता

हम ऐसे निःशुल्क कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करते हैं जो आपकी कंपनी को आज के कठिन व्यावसायिक वातावरण में प्रतिस्पर्धा बनने और अपने अतिरिक्त खर्चों को कम रखने में मदद कर सकती हैं। हमारे बिजनेस सर्विस कार्यालय से **800-HIRE-992** पर संपर्क करें।

यह निःशुल्क सेवाएं हर साल आपके हजारों डॉलर बचा सकती हैं और इनमें ये शामिल हैं:

- New York State Job Bank (न्यूयॉर्क स्टेट जॉब बैंक पर नौकरी की पोस्टिंग)
- कस्टमाइज़ किए भरती और कैरियर फेयर
- नियुक्ति के इनसेन्टिव, टेक्स क्रेडिट और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (OJT)
- मानव संसाधन परामर्श
- प्रशिक्षण
- प्रशिक्षण कार्यक्रम
- लेऑफ को टालना

### नौकरी और केरियर

अगर आप एक नई नौकरी खोज रहे हैं, तो पूरे न्यूयॉर्क राज्य में स्थित हमारे केरियर सेन्ट्रों पर हमारी निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठाएं।

- केरियर काउन्सलिंग और वर्कशॉप
- रेज़्यूमे डेवेलपमेंट
- कौशलों का आकलन
- कम्प्यूटर, ऑफिस उपकरण और इंटरनेट तक पहुँच
- कम्प्यूटर वर्कशॉप
- वयस्क मूलभूत शिक्षा/इंग्लिश एज़ ए सेकेंड लेंग्वेज
- नौकरी की खोज के लिए संसाधन और नियुक्ति में सहायता
- व्यावसायिक वर्ग प्रशिक्षण
- प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता
- अन्य शैक्षिक, प्रशिक्षण और सामाजिक सेवाओं को रेफेरल

### प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, नौसिखिया मास्टर स्तर के कर्मियों से व्यापार या कौशल सीखते हैं। वे नौकरी पर और कक्षा में सीखते हैं। न्यूयॉर्क राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वर्तमान में भवन-निर्माण संबंधी व्यवसाय (बिल्डिंग ट्रेड्स), उत्पादन (मेन्युफैक्चरिंग) और सेवा (सर्विस) व्यवसायों में 300 से अधिक व्यवसाय शामिल हैं। हम न्यूयॉर्क राज्य में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार हैं।

### श्रम संबंधी डेटा

हमारे शोध और सांख्यिकी संभाग के श्रम बाज़ार विश्लेषणकर्ता नियोक्ताओं, डेवेलपर्स और अन्यो को वेतन, महत्वपूर्ण आर्थिक रुझानों, श्रम उपलब्धता संबंधी डेटा प्रदान करते हैं। वह नौकरी खोज रहे लोगों को पेशे और केरियर संबंधी जानकारी भी प्रदान करते हैं।

### कार्यबल संरक्षण

#### आप्रवासी नीतियाँ और मामले

आप्रवासी नीतियाँ और कार्य विभाग दूसरे देशों के श्रमिकों को हमारी ओर से पेश किए जाने वाले कई कार्यक्रमों और सेवाओं का उपयोग करने में मदद करता है। हमारे कर्मचारी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं:

- आपको देय वेतन प्राप्त करना
- नौकरी खोजना
- नौकरी के लिए प्रशिक्षण में सहायता प्राप्त करना

हम आप्रवासी और मौसमी खेत मज़दूरों की भी सहायता करते हैं। सहायता के लिए **877-466-9757** पर कॉल करें।

#### वेतन सुरक्षा

श्रम मानक विभाग सभी श्रमिकों की सुरक्षा करता है, भले ही उन्हें कितानों का भुगतान किया जाता हो या प्रलेखित नहीं किया जाता हो। हम कामगारों के शोषण, यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी के खिलाफ लड़ने के लिए काम करते हैं।

हम इसके लिए राज्य श्रम कानून लागू करते हैं:

- न्यूनतम वेतन
- काम के घंटे
- बाल मज़दूरी
- वेतन और वेतन पूरकों का भुगतान
- आप्रवासी खेत मज़दूर
- वस्त्र उद्योग में स्थितियाँ

## खेत मज़दूर

न्यूयॉर्क राज्य में प्रवासी खेत मज़दूरों की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम हैं। श्रम मानक जांचकर्ता प्रवासी खेत मज़दूरों की कामकाजी स्थितियों की जांच करते हैं और उचित एजेंसी को समस्याओं की रिपोर्ट करते हैं।

## बाल मज़दूरी

न्यूयॉर्क राज्य में बाल मज़दूरी कानूनों को सख्ती से लागू किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी श्रमिकों पर कानून लागू होता है। इससे स्कूल वर्ष के दौरान युवाओं के काम करने के घंटे सीमित हो जाते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि वे असुरक्षित मशीनरी का संचालन या खतरनाक काम नहीं कर सकते हैं।

## सुरक्षा और स्वास्थ्य

श्रम विभाग नियोक्ताओं, कामगारों और लोगों की कार्यस्थल पर जोखिमों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी खतरों से रक्षा करता है। इनमें से कुछ में शामिल हैं:

- एसबेस्टॉस नियंत्रण
- पेशेवर सुरक्षा और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
- बॉइलर सुरक्षा
- क्रेन ऑपरेटर्स, ब्लास्टर्स, एसबेस्टॉस कर्मियों के लिए लाइसेंस
- स्की के क्षेत्रों, अम्युज़मेन्ट राइड्स और लोगों के इकट्ठा होने के स्थान

## लोक निर्माण

लोक निर्माण ब्यूरो प्रचलित श्रम कानून को प्रभाव में लाता है। हम:

- हर साल दरें निर्धारित करते हैं
- कानून लागू करते हैं

यह कानून कहता है कि श्रमिकों को प्रचलित श्रम दर कमाना चाहिए यदि वे यहां कार्यरत हैं:

- सार्वजनिक निर्माण प्रोजेक्ट्स में
- सार्वजनिक इमारतों में सर्विस कार्यों में

## बेरोज़गारी बीमा

अगर आप बिना किसी गलती के बेरोजगार हैं, तो आप काम ढूंढने के दौरान साप्ताहिक लाभ भुगतान के लिए योग्य हो सकते हैं। हम कार्यबल में लौटने में आपकी मदद करने के लिए हम जो कर पाएंगे करेंगे।

आप बेरोज़गारी बीमा के लिए ऑनलाइन [labor.ny.gov](http://labor.ny.gov) पर या टेलीफोन क्लेइम्स सेंटर को **888-209-8124** पर कॉल कर के दावा कर सकते हैं।

## हमसे संपर्क करें

वेबसाइट: [labor.ny.gov](http://labor.ny.gov)

टेलीफोन:

**888-4-NYSDOL (888-469-7365)**

**800-662-1220** टीटीवाय/टीडीडी